

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

Ph.D- 23148  
पत्र संख्या : .....  
दिनांक : 09/10/24

प्रेषक,


कुलसचिव,  
लखनऊ विश्वविद्यालय,  
लखनऊ-226007,

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,  
लखनऊ विश्वविद्यालय,  
लखनऊ।

महोदय / महोदया,

कृपया सूचित करना है कि विश्वविद्यालय के Ph.D. पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2024-25 प्रारम्भ करने हेतु आपके विभाग में रिक्त सीटों का विवरण संगत Rules, Regulation & Notifications के अनुपालन में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम (सक्षम प्राधिकारी से) से पारित कराकर निर्धारित प्रारूप पर समन्वयक, प्रवेश के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
(विद्या नन्द त्रिपाठी)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या..... दिनांक.....  
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी को सूचनार्थ, ल0वि0वि0ल0।
2. समस्त संकायाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. अधिष्ठाता/समन्वयक, प्रवेश, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. परीक्षा नियंत्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. इंचार्ज वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित की विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा समस्त सम्बन्धित के मेल आई0डी0 अपलोड करने का कष्ट करें।
6. निदेशक, आई0पी0पी0 आर0, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. निदेशक, नवीन परिसर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

कुलसचिव



# University of Lucknow

## PROFORMA FOR APPROVAL AS RESEARCH SUPERVISOR

(Please Submit the Performa & enclose supporting documents. Without supporting documents, application will not be considered)

Please V the appropriate box :  New Supervisor  Existing Supervisor in Other University

|   |  |                     |   |
|---|--|---------------------|---|
| Subject :   |  |                     |   |
| Area of Specializations :   |  |                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           Self – Attested<br/>Photograph<br/><br/>           (Please do not staple)         </div> |
| <b>Personal Information</b>   |  |                     |   |
| Name (in CAPITAL Letters):  |  |                     |   |
| Father's Name :   |  |                     |   |
| Mother's Name:  |  |                     |   |
| Date of Birth :   | DD   | MM                  | YYYY  |
| Gender (Please V)   |  | M                   | F   |
| Designation (Please V)  | Assistant Professor  | Associate Professor | Professor   |
| Please Specify if Other   |  |                     |   |
| Department :  |  |                     |   |
| Faculty :   |  |                     |   |
| College/University :  |  |                     |   |
| Address for Correspondence :  |  |                     |   |
| Pin Code  |  |                     |   |
| Email :   |  |                     |   |
| Date of Joining (in full time regular position) :   |  |                     | DD  |
|   |  |                     | MM  |
|   |  |                     | YYYY  |
| <b>Supervisor Details</b>   |  |                     |   |
| Are you an approved supervisor (Please V)   |  |                     | Yes   |
| If 'Yes', Please attach Documentary evidence  |  |                     | No  |
| Name of University :  |  | Year of Approval :  |   |
|   |  | YYYY                |   |
| Presently Registered Ph.D. Scholars :   |  |                     |   |
|   |  |                     |   |
| Total Vacant Seats# :   | The number of new Research Scholars that you wish to take under your guidance) |                     |   |
| <p># A Research supervisor who is a Professor, at any given point of time can not guide more than 08 scholars, and Associate Professor can guide up to a maximum of 06 PhD scholars and Assistant Professor can guide up to a maximum of 04 PhD scholars.</p> <p>New supervisors shall declare their seats in a phased manner e.g. 50% seats in first year and rest of the seats in next consecutive years.</p> |  |                     |   |





# University of Lucknow

## Research Publications & Educational Qualifications (Only for New Supervisors)

Publication Details : (05 for Professor/ Associate and 03 for Assistant Professor)

Please attach self-attested reprints of published research papers along with a summary sheet of publications in the following format.

| Sl. No. | Title | Name of Journal | Year | ISSN/ISBN Number | No. of Co-authors | Whether Principal Author or Co-Author |
|---------|-------|-----------------|------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1       |       |                 |      |                  |                   |                                       |
| 2       |       |                 |      |                  |                   |                                       |
| 3       |       |                 |      |                  |                   |                                       |
| 4       |       |                 |      |                  |                   |                                       |
| 5       |       |                 |      |                  |                   |                                       |

Qualifications :

Subject of Post-Graduation :

Subject of Ph.D. :

Thesis Title :

Year of Registration :

Year of Award of Ph.D. Degree :

University from which Ph.D. is awarded :

## Experience

Total Teaching Experience : (Full time regular)

Under Graduate :

Post Graduate :

I .....hereby declare that the particulars furnished by me in this application form are true to the best of my knowledge and belief and I fulfill all the requisition to become the research supervisor as per the provisions laid down in the "University of Lucknow Ph.D. Ordinance 2023". In case any information is found to be incorrect at any stage, my consideration for research supervisor may be cancelled by the University.

Date :

DD

MM

YYYY

Signature of Applicant

Forwarded by :

Head of the Department, LU/Principal of College  
Signature & Seal